




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 75]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 1979/चैत्र 5, 1901

No. 75]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 1979/CHAITRA 5, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1979

सूचि पत्र

संख्या 13018/5/78-अ० भा० सं० (1) दिनांक 15 जनवरी 1979 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की दिनांक 15 जनवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या 13018/5/78/अ० भा० सं० (1) में निम्नलिखित परिवर्तन प्रादि किए जाते हैं—

सिविल सेवा परीक्षा, 1979 के लिये में पाई गई विसंगतियां (पृष्ठ 65 से 127 तक)।

सन्दर्भ	अशुद्ध	शुद्ध
पृष्ठ 68, कालम 1 मालिका की नीचे से दूसरी पंक्ति	शामिल	काट दें
पृष्ठ 68, कालम I पैरा II की प्रथम पंक्ति	आपन्नता	अपात्रता
पृष्ठ 68, कालम II पैरा 14 की चौथी पंक्ति	मूल्य	काट दें
पृष्ठ 69, कालम I ऊपर से दूसरी पंक्ति	शागू	लागू
पृष्ठ 69 कालम II पैरा 3 की दूसरी व तीसरी पंक्तियां	300-300 अंकों वाले परम्परागत निबंधात्मक शैली के 8 प्रश्न पत्र होंगे।	परम्परागत निबंधात्मक शैली के 8 प्रश्न-पत्र होंगे और प्रत्येक के 300 अंक होंगे।
पृष्ठ 70, कालम I नोट (iii) की दूसरी पंक्ति	डिग्री	डिग्री स्तर
पृष्ठ 71, कालम II शीर्षक "प्रारंभिक परीक्षा" से ऊपर	---	भाग क
पृष्ठ 72, कालम I ऊपर से दूसरे पैरे की तीसरी पंक्ति	नविक	जैविक
पृष्ठ 73, कालम I शीर्षक "सिविल इंजीनियरी" के ऊपर की पंक्ति	तथा समस्याएं	तथा संकल्पनात्मक समस्याएं

संदर्भ	अनुसूची	शुद्ध
पृष्ठ 73, कालम I शीर्षक "सिविल इंजीनियरी" के नीचे की पंक्ति	म्येलिकी	म्येलिकी
पृष्ठ 73, कालम II ऊपर से 22 वीं पंक्ति	और प्रवाह	और अनुसूचित प्रवाह
पृष्ठ 76, कालम I ऊपर से तीसरी पंक्ति	खेलन	खेलकण
पृष्ठ 76, कालम I ऊपर से सातवीं पंक्ति	विधित	विधित
पृष्ठ 76, कालम I ऊपर से 15वीं पंक्ति	न्यून	न्यून
पृष्ठ 76, कालम II शीर्षक "ताप भौतिकी" के प्रथम पैरे में अंतिम पंक्ति	तरंग और दोलन	तरंग और दोलन
पृष्ठ 78, कालम I शीर्षक प्रधान परीक्षा से ऊपर	---	भाग ख
पृष्ठ 80, कालम I नीचे से सातवीं पंक्ति	अनुवाद	अनुवाद
पृष्ठ 80, कालम II ऊपर से 22वीं पंक्ति	सिक्ता	सिद्धांत
पृष्ठ 81, कालम II भाग ख से ऊपर की पंक्ति	सी०पी० एण्ड	सी०पी० एम०
पृष्ठ 86, कालम I पैरा 4 की दूसरी पंक्ति	शेक की धम्म नीति	प्रशोक की धर्म नीति
पृष्ठ 87, कालम II पैरा 12 की पंक्ति से नीचे	---	नोट (i) : उम्मीदवार को सभी या कुछ प्रश्नों के उत्तर संबंधित भाषा में देने को कहा जा सकता है। नोट (ii) : संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के संबंध में उन्हीं लिपियों का प्रयोग करना है, जिन का उल्लेख प्रधान परीक्षा से संबंधित परिशिष्ट I के खंड II (ख) में किया गया है।
पृष्ठ 89, कालम II ऊपर से दूसरी पंक्ति	हेनरी VI	हेनरी IV
पृष्ठ 92, कालम I खण्ड III में चौथी पंक्ति	बुक ट्रस्ट,	नेशनल बुक ट्रस्ट
पृष्ठ 94, कालम I प्रश्न पत्र II के क्रम सं० 12 पर	मरास्थ	हमरास्थ
पृष्ठ 98, कालम I प्रश्न पत्र II की क्रम सं० 6 की पंक्ति	गुम्हार-ए-खातिर	घुबारे खातिर
पृष्ठ 98, कालम I शीर्षक "प्रबंध ब लोक प्रशासन" से ऊपर	भारतीय भाषाओं का साहित्य काट दिए जाएं: टिप्पणी (i) : उम्मीदवार को कुछ प्रश्नों के उत्तर संबंधित भाषा में देने होंगे। टिप्पणी (ii) : संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की लिपियां वही होंगी जो प्रधान परीक्षा से संबंधित परिशिष्ट I के खण्ड-II (ख) में निर्दिष्ट की गई हैं।	
पृष्ठ 99, कालम I शीर्षक "कामिक प्रबंध" के नीचे की प्रथम पंक्ति	जल	जन
पृष्ठ 99, कालम II ऊपर से पांचवीं पंक्ति	युक्त	मूक्त
पृष्ठ 101, कालम I पैरा (2) की अंतिम पंक्ति	संप्रतिबंध बंटन	संप्रतिबंध बंटन
पृष्ठ 101, कालम II शीर्षक "यांत्रिक इंजीनियरी" से नीचे	प्रश्न पत्र	प्रश्न-पत्र I
पृष्ठ 101, कालम II ऊपर से दसवीं पंक्ति	मतिकी	गतिकी
पृष्ठ 103, कालम II शीर्षक सामान्य मनोविज्ञान (प्रायोगिक मनोविज्ञान सहित) से ऊपर	---	19-मनोविज्ञान प्रश्नपत्र I
पृष्ठ 103, कालम II नीचे से 14वीं पंक्ति	वर्ग	वर्ण
पृष्ठ 104, कालम I शीर्षक "समाज शास्त्र" से ऊपर	प्रण्ड एडलर, हामी, सारिलबन, क्रोम के योग-दान। मनस्ताप की अवस्था—मनोविक्षिप्ति—चरित्र णन। अवस्थाएँ मनः शारीरिक अवस्थाएँ। ---मस्तिष्क की अवस्थाएँ--- मानसिक गतिरोध महानिक लक्षण निरूपण में सूचना के लक्ष्य और स्त्रात नदानिक मनोविज्ञान में चिकित्सा संबंधी दृष्टिकोण।	
पृष्ठ 105, कालम II ऊपर से दसवीं पंक्ति	परीक्षा	परिबीक्षा
पृष्ठ 106, कालम I पैरा 2 वीं प्रथम पंक्ति	निवृत्ति	निवृत्ति
पृष्ठ 107, कालम II शीर्षक "वैतनमान" में ऊपर से पांचवीं पंक्ति	745-38	740-35
पृष्ठ 110, कालम I ऊपर से 18वीं पंक्ति	(पदों का प्रतिपात)	(पदों का 50 प्रतिपात)
पृष्ठ 116, कालम II सारिका में	सहाय्य ग्रंथ	सहायक ग्रंथ
पृष्ठ 117, कालम II पैरा (ज) की चौथी पंक्ति	अधिकारी के	अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के

संदर्भ	अशुद्ध	शुद्ध
पृष्ठ 117 कालम II सबसे नीचे से तीसरी पंक्ति	15	35
पृष्ठ 122 कालम II सबसे नीचे की पंक्ति	योग्य	अयोग्य
पृष्ठ 124 कालम I ऊपर से 22वीं पंक्ति	या	यह
पृष्ठ 125 कालम I तालिका से ऊपर क्रम सं० (4) की पंक्ति	विजय	विजन
पृष्ठ 126 कालम I नीचे से दूसरे पंरे की सीमरी और चौथी पंक्ति	ए०बी०सी०	a, b, c
पृष्ठ 126 कालम II ऊपर से दूसरी पंक्ति	ए०बी०सी०सी०ई०	a, b, c, d, e
पृष्ठ 126 कालम II ऊपर से आठवीं और नौवीं पंक्तियां	(बी)	(b)
पृष्ठ 127 कालम I सबसे नीचे चार पंक्तियां	(क), (ख), (ग), (घ)	(a), (b), (c), (d)
पृष्ठ 127 कालम II सबसे ऊपर की पांच पंक्तियां	(क) (ख) (ग) (घ) (ङ)	(a) (b) (c) (d) (e)
पृष्ठ 127 कालम II पैरा 3, 4 और 5 के नीचे	(क) (ख) (ग) (घ)	(a) (b) (c) (d)

दिनेश चन्द्र मिश्र, उप सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 26th March, 1979

## CORRIGENDUM

No. 13018/5/78—A. I. S. (I) In the Department of Personnel & A.R.'s notification No. 13018/5/78-AIS (I) dated 15th Jan. 1979 Published in Part I Section I of the Gazette of India Extraordinary of 15th January, 1979 the following changes may be effected:—

## CIVIL SERVICES EXAMINATION, 1979

## CORRIGENDUM

Reference	For	Read
Page 129, col. 1, rule 6(b)(vii), line 1.	mtximum	maximum
line 3.	st.	Ist
Page 130, col. 1, rule 9 line 1.	.. para 6..	.. para 5..
Page 130, col. 2, rule 19 Line 5.	my prescribe	may prescribe
<b>Appendix I</b>		
<i>Section II</i>		
Page 131, col. 2, Note (i) below para 2. list of optional subjects, objective line 4.		Objective type
<i>Section III</i>		
Page 132, col. 2, under the heading, 'SYLLABI FOR THE EXAMINATION'	General Studies	Part A General Studies
Page 133, col. 1, last para under 1. Agriculture, line 2.	lock	Block
Page 134, col. 1, 2nd para under sub-heading 3, physical capacity, line 4.	bound	bond
Page 134, col. 1, 3rd line from the bottom.	curviilnear	curvilinear
Page 136, col. 2, item 6 under Section 'B' of Heading 10-Indian History.	Engineerings	Beginnings
Page 138, col. 1, last para under heading 14-Philosophy line 2.	Regilion	Religion
Page 138 col. 1, First para Mechanics under 15-Physics, Line 3.	inerita	inertia
Page 138, col. 1 Second para Thermal Physics under heading 15-Physics, line 5.	weals	weal's
Page 138, col. 1, last para, line 4.	hysterests	hysteresis
<b>MAIN EXAMINATION</b>		
Page 139, col. 2 Heading Main Examination.	MAIN EXAMINATION	PART B MAIN EXAMINATION
Page 141, col. 2, line 27 from the top.	simply	simple Part II
Page 143, col. 2, under heading PAPER II Part I After para 3.	concept	concept...
Page 143, col. 2, last para under PAPER II, line 5.	roducts	products
Page 144, col. 1, item 5 under heading 6. Economics.	fical	fiscal
Page 146, col. 1, 3rd para from top, line.	rook	rock
Page 147, col. 2 After heading 12. Literature of the following languages.	12. Literature of the following languages.	12. Literature of the following languages. "Note (i):—A candidate may be required to answer some or all the Questions in the language concerned.

Reference	For	Read
		Note (ii):—In regard to the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution, the scripts will be the same as indicated in Section II(B) of Appendix I relating to the Main Examination."
Page 148, col. 1, item 4 below the heading—Authors line 1.	4, Taufiq Al-Hakim: Drama: Sirtul muntahiraa.	4, Mahmud Timur: Story: "Ammi Mutawalli."
Page 149, col. 1, After 2nd para under heading 12(iv) English and before item 1. Shakespeare.	....be included	....be included PAPER II This paper will require first hand reading of the texts prescribed and will be designed to test the candidates' critical ability.
Page 149, col. 1, Against item 1. Shakespeare, line 2.	Jamlet	Hamlet
Page 149, col. 2, line 8 under Part 'B' of Paper I German	Classical Ago	Classical Age
Page 149, col. 2 para 1 under Paper II, line 4.	must read	must have read
Page 149 col. 2 item 4 under Paper II line 1.	Beinrich	Heinrich
Page 152, col. 2, Paper II under heading 12(xii) Marathi, lines 2-3	abilit	ability
Page 153, col. 1, item 9 under Paper II, line 1.	Abul Fzl	Abul Fazl
Page 154, col. 2, line 7 from the bottom.	carry	carrying
Page 155, col. 1, Heading 12(xx)—Telugu.	(xx) Telugu	(xix) Tamil
Page 156, col. 2, Note (i) and (ii) at the top.	The following may be deleted:— "Literature of the Indian Languages Note (i):—A candidate may be required to answer some or all the Questions in the language concerned. Note (ii):—In regard to the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution, the scripts will be the same as indicated in Section II(B) of Appendix I relating to the Main Examination."	
Page 158, col. 1, Para 5(iii) line 1 line 2.	Statistics category	Statics catenary
Page 161, col. 2, line 8 under heading 20. Sociology—Paper 1.	social system: equilibrium, status, role, socialisation, re...	Social conflict: role conflict; conflict of in- terests; ideas and...
Page 161, col. 2 last para under heading 20. Sociology, line 1.	odern	Modern
Page 161, col. 2, item 6 under heading 21-Zoology —Paper 1.	earthworm	earthworm
Page 162, col. 1, para under heading 3-Physiology. line 3. line 7.	Carbohydrate Never implse Epithelium	Carbohydrate Nerve impulse. Epithelium
Page 162, col. 1, 2nd para under 5-Embryology and Histology, line 2.		
Appendix II		
Page 167, col. 2 line 8 from the top	2,270	2,750
Page 170, col. 1 lines 13-14 from the top.	Junior Scale Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50- 2,000	Junior Administrative Grade: Rs. 1,500-60-1,800-100-2,000
Page 173, col. 1, 2nd para of paper (c) Scales of pay—line 1.	reuirod	recruited
Appendix III		
Page 174, col. 1, sub-col. (3) in the cage, against item (1).	78-cm	79 cm
Page 175, col. 1, sub-col. (3) in the cage, against item 3.		5 seconds
Page 178, col. 1, line 8, from top.	Funds	Fundus
Appendix IV		
Page 178, col. 2 Heading, line 2	OBJECTION	OBJECTIVE
Page 179, col. 1, 2nd sub-para. line 5.	vest	best

D.C. MISRA, Deputy Secy.